

6. "Tax planning is necessary while making plans for the management of personal finance". Explain. (5)

“व्यक्तिगत वित्त के प्रबंधन के लिए योजना बनाते समय कर नियोजन आवश्यक है”। व्याख्या कीजिए।

7. Explain the concept and measurement of risk and return. (5)

जोखिम और रिटर्न की अवधारणा और माप की व्याख्या करें।

8. Write short notes on :

(a) Digital Currency (2.5)

(b) Tax planning (2.5)

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(i) डिजिटल करेंसी

(ii) टैक्स प्लानिंग

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 4726

H

Unique Paper Code : 2416000004

Name of the Paper : Personal Financial Planning

Name of the Course : **Common Prog Group – SEC**

Semester : II

Duration : 1 Hour

Maximum Marks : 30

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt any **Six (06)** questions.
3. Parts of the questions to be attempted together.
4. **All** questions carry equal marks.
5. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

2. कोई छह प्रश्न कीजिए।
3. प्रश्नों के भागों को एक साथ हल कीजिए।
4. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
5. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. "Maintaining sufficient emergency fund should be the first step of any financial plan". Elucidate. (5)

“पर्याप्त आपातकालीन निधि बनाए रखना किसी भी वित्तीय योजना का पहला कदम होना चाहिए।” व्याख्या करें।

2. "SIP is a method of investing in mutual funds and a flexible method of investment for small investors." Explain. (5)

“एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश का एक तरीका है और छोटे निवेशकों के लिए निवेश का एक लचीला तरीका है।” व्याख्या कीजिए।

3. Explain credit life insurance. (5)

क्रेडिट जीवन बीमा के बारे में समझाइये।

4. A portfolio consist of two securities namely P and Q. The return on securities P and Q is given as under :

Security P	Security Q	Probability
17	15	0.6
22	18	0.4

Find the expected return associated with portfolio where associated weights are 0.5 and 0.5 for P and Q respectively. (5)

एक पोर्टफोलियो में दो प्रतिभूतियाँ शामिल हैं अर्थात् P और Q। प्रतिभूतियों P और Q पर रिटर्न निम्नानुसार दिया गया है :

प्रतिभूति P	प्रतिभूति Q	संभावना
17	15	0.6
22	18	0.4

पोर्टफोलियो से जुड़े अपेक्षित रिटर्न का पता लगाइये जहाँ P और Q के लिए संबंधित भार क्रमशः 0.5 और 0.5 हैं।

5. Explain principle of indemnity in relation to property insurance. (5)

संपत्ति बीमा के संबंध में क्षतिपूर्ति के सिद्धांत की व्याख्या करें।